

कोटेड सेंटर के टोलफ्री फोन नं.: Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55

आवधिक जमा रसीद TERM DEPOSIT RECEIPT

परीपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन M. V. is subject to TDS

ग्राहक सं. क्र. BRF005151

ग्राहक सं. क्र. BRF005151

परिपक्वता मूल्य ₹ 2409201

Issue Date 23/07/2019

प्रधान कार्यालय - माण्डवी, बड़ौदा
Head Office - Mandvi, Baroda

शाखा हजारी

Branch हजारी

Received With Thanks From Greeta Desai

As of Date 23/07/2019

Due Date 23/07/2019

रुपये One lakh Seventy five thousand only

से धन्यवाद सहित प्राप्त

As Term Deposit Under Scheme

रसीद क्रमांक	मूल्य तारीख	देय तारीख	अवधि	ब्याज दर	राशि ₹
Receipt No. TDR/2015/JJ 960605	Value Date 23/07/19	Due Date 23/07/2019	Period 60M	Rate of Interest 6.45%	Amount ₹ 175000/-

परिचालनीय अनुदेश यदि है

लिफ्ट नोट करने की ता.

लिफ्ट रद्द करने की ता.

नामिती रजिस्ट्रेशन क्रं

Operational Instructions, if any

Lien Cancelled On

अहस्तान्तरणीय
NON-TRANSFERABLE

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा	For BANK OF BARODA
वरिष्ठ प्रबंधक	Senior Manager
हस्त. क्रं. SIG. NO.	
प्रबंधक	Manager
हस्त. क्रं. SIG. NO.	

यहाँ पिछले पृष्ठ पर देखें SEE CONDITIONS OVERLEAF

एम्‌सीबी बैंक
ऑफ इंडिया



EMG/CCTDR/MUZDIV
Central Bank
of India

(भारत सरकार का उपक्रम)
केंद्रीय कार्यालय:

चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.

(A Government of India Undertaking)
Central Office :
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

सं. No. N 191429

सा.ज.र./
ध.वृ.ज.प्र./
मा. / त्रै. / व्या. ज.र./

TERM DEPOSIT RECEIPT

प्रभावी होने की तारीख / Effective Date

16-11-2019

जारी करने की तारीख / Date Of Issue

16-11-2019

खाता क्र. A/c No.

3785243948

RAVVI POLKMAR शाखा / Branch

Received from E.E. RWD WORKS DIVISION MAHARAJE SMIT. MITA
DEVI — से

रुपये / Rupees One lakh twenty thousand only

प्राप्त हुए.

मूल राशि Principal Amount	परिपक्वता मूल्य (*) Maturity Value (*)	अवधि Period	ब्याज दर Int. Rate	ब्याज की मासिक / त्रैमा. किल Mthly/Qty Inst of Int.	निश्चित तारीख Due Date
1200000.00	1636250.00	5 Yrs	6.25	—	16-11-2024

विशेष अनुदेश
Special Instructions

Jointly

जन्मतिथि Date of Birth
यदि अवयस्क हो If Minor

नामांकन पंजीकृत किया गया
Nomination Registered

हाँ Yes

नहीं No

प्राधिकृत हस्ताक्षरी/Authorised Signatory
ह.क्र. सं. / S.S. No. 109ha US

प्राधिकृत हस्ताक्षरी/Authorised Signatory
ह.क्र. सं. / S.S. No.

आहरण की सूचना दि. _____ को दी गई.
Notice of withdrawal given on _____

*"Maturity Value/Interest amount is subjected to deduction of TDS as per IT Rules."
"BANK WILL DEDUCT TAX AT SOURCE FROM THE INTEREST PAID / ACCRUED, IF FORM 15G/15H IS NOT SUBMITTED IN THE MONTH OF APRIL EVERY YEAR"

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

कोन्टेक्ट सेंटर के टोलफ्री फोन नं. Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55

आवधिक जमा रसीद TERM DEPOSIT RECEIPT

प्लेज फरमि प्लेज कस्टमर सं. क्र. SR1005151
Short-term Medium Customer Ref. No.

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन
M. V. is subject to TDS

परिपक्वता मूल्य ₹ 2662291
Maturity Value ₹

जारी तारीख

Issue Date तारीख को 23/07/2019

As of Date देय तारीख 23/07/2020

Due Date जन्म तारीख (यदि नाबालिग)

D.O.B. if Minor खाता क्रं. 121000322130

A/c No.

आवधिक जमा राशि के योजना अनुसार

As Term Deposit Under Scheme

रसीद क्रमांक Receipt No.	मूल्य तारीख Value Date	देय तारीख Due Date	अवधि Period	व्याज दर Rate of Interest	राशि ₹ Amount ₹
TDR/2015/JJ 960604	23/07/19	23/07/20	60m	6.45%	2662291

परिचालनीय अनुदेश यदि है

Operational Instructions, if any

लियन नोट करने की ता.

Lien Noted On

लियन रद्द करने की ता.

Lien Cancelled On

नामिती रजिस्ट्रेशन क्रं
Nominee's Reg. No.

अहस्तान्तरणीय
NON-TRANSFERABLE

यहाँ पिछले पृष्ठ पर देखें SEE CONDITIONS OVERLEAF

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा FOR BANK OF BARODA

वरिष्ठ प्रबंधक Senior Manager

हस्त. क्रं. SIG. NO.

प्रबंधक Manager

हस्त. क्रं. SIG. NO.

GITA DEVI

GITA DEVI H Q SRI RAJDEO RAI MIRPUR PATADH

VAISHALI

844116

INDIA

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination

N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No.

BCLPD5224R

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

लियन चिह्नित / Lien Marked

N

जमा राशि /
Deposit Amount

जारी करने की तिथि /
Date of Issue

व्याजदर /
Rate of Interest

जमा की अवधि /
Tenure of Deposit

परिपक्वता तिथि /
Maturity Date

परिपक्वता मूल्य /
Maturity Value*

15000

15-11-2019

6.25

60 Months 0 Days

15-11-2024

20453

*परिपक्वता मूल्य टॉडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :

i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।

ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।

1. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।

6. परिपक्वता आहरण क्लॉज

i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम।

ii). करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1.5% कम। करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. Automatic Renewal Clause

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by the account holder for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age 60 years or more).


6. Premature Withdrawal Clause

i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.

ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Please - E.E. RWD Works Div. Mahua



जमा राशि सूचना / Deposit Confirmation Advice

GITA DEVI

GITA DEVI H O SRI RAJDEO RAI MIRPUR PATADH
VAISHALI
844116
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 12400300022611
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0402205112
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No BVR005451
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 12400400010640
शाखा का नाम/Branch Name HAJIPUR BIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No. BCLPD5224R

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
95000	04-02-2020	6.25	60 Months 0 Days	04-02-2025	129536

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)


नियम व शर्त/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- कई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।
- फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।
- निवासी व्यक्ति को द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी।
- फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- परिपक्वता आहरण क्लॉज
- 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1% कम।
- 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।
- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause
- For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
- Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
- Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge to E.G RWD works Division
Munham He with heeta Duni

जमा राशि सूचना / Deposit Confirmation Advice



GITA DEVI	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12400300022602
GITA DEVI H O SRI RAJDEO RAI MIRPUR PATADH	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0302205154
VAISHALI	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	BVR005451
844116	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12400400010640
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	HAJIPUR BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
नामांकन / Nomination	N	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No.	BCLPD5224R	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF	
लियन चिह्नित / Lien Marked	N	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
60000	03-02-2020	6.25	60 months 0 Days	03-02-2025	81812

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank
ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

GITA DEVI

GITA DEVI H O SRI RAJDEO RAI MIRPUR PATADH
VAISHALI
844116
INDIA

योजना / Scheme

FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination

N

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

पैन नंबर / PAN No.

BCLPD5224R

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

लियन चिह्नित / Lien Marked

N

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

12400300022412

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FDR181193134

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

BVR001451

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

12400400010640

शाखा का नाम/Branch Name

HAJIPOUR BIHAR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

Pledge to EE RWD work
division Mahua.

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
50000	15-11-2019	6.25	60 Months 0 Days	15-11-2024	60000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है

2. स्वतः नवीकरण कलोन :

i) यदि अवधि अनिर्दिष्ट न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.

ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है.

4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खात पर कर कटौती की जाएगी.

5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.

6. परिपक्वता आहरण कलोन

i) करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से कम.

ii) करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रहे उसके काई रेट से 1% कम. करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक का कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.

1. Rate of Interest is in percentage per annum

2. Automatic Renewal Clause

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposit will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposit will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from Senior citizens (age of 60 years or above)

6. Premature Withdrawal Clause

i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty (if applicable) on the date of deposit, for the period for which deposit has remained in Bank.

ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1% penalty (if applicable) more than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained in Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a written notice should be given 31 days prior to withdrawal or deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature